

## अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हेतु बजटीय आवंटन में कमी

### प्रलिस के लिये:

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा योजना, USTTAD

### मेन्स के लिये:

अल्पसंख्यकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएँ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

## चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में [केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय](#) के लिये बजटीय आवंटन में 38% की कमी आई है।

## बजटीय आवंटन में कमी वाले क्षेत्र:

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिये मुफ्त कोचिंग, कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों (USTTAD योजना, नई मंजिल एवं अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व विकास योजना सहित) के लिये आवंटन में बड़ी गिरावट की गई।
- इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अंबरेला कार्यक्रम हेतु आवंटन, जिसमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और [मदरसों तथा अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा योजना](#) शामिल है, को 1810 करोड़ रुपए से कम कर 610 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि आवंटन में 66.2% की गिरावट को दर्शाता है।

## भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रमुख योजनाएँ:

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना: छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिये [प्रत्यक्ष लाभ अंतरण](#) (Direct Benefit Transfer- DBT) मोड।
- नया सवेरा- नःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना: इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों/उम्मीदवारों को तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु नःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करना है।
- पढो परदेश: यह अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण [पञ्चाज](#) [सवसिद्धि](#) की योजना है।
- नई रोशनी: अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का नेतृत्व विकास।
- सीखो और कमाओ: यह 14-35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं हेतु एक कौशल विकास योजना है तथा इसका उद्देश्य मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोजगार क्षमता में सुधार लाना है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK): यह चहिनति अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास की कमियों को दूर करने के लिये तैयार की गई योजना है।
  - PMJVK के तहत कार्यान्वयन के क्षेत्रों की पहचान अल्पसंख्यक आबादी और 2011 की जनगणना के सामाजिक-आर्थिक एवं बुनियादी सुविधाओं के आँकड़ों के आधार पर की गई है जैसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के रूप में जाना जाएगा।
- उस्ताद (विकास हेतु पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन): इसे मई 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी कारीगरों/शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल की समृद्ध वरिासत को संरक्षित करना है।
  - इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कारीगरों तथा उद्यमियों को एक राष्ट्रव्यापी विपिनन मंच प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये पूरे देश में [हुनर हाट](#) आयोजित किये जाते हैं।
- प्रधानमंत्री वरिासत का संवर्द्धन (PM VIKAS): बजट 2023 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में नए PM VIKAS को जोड़ा गया है।
  - यह देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
  - इस योजना को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के ['कौशल भारत मशिन'](#) तथा कौशल भारत पोर्टल (SIP) के साथ एकीकरण के माध्यम से लागू किया जाना है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में यदकिसी धार्मकि संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह कसि वशिष लाभ का हकदार है? (2011)

1. यह वशिषिट शैक्षणकि संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है ।
2. भारत का राष्ट्रपतस्वतः ही लोकसभा के लयि कसिी समुदाय के एक प्रतनिधिको नामति करता है ।
3. इसे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ मलि सकता है ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन भारत में दूरसंचार, बीमा, बजिली आदजैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नयामकों की समीक्षा करता है? (2019)

1. संसद द्वारा गठति तदर्थ समतियिँ
2. संसदीय वभाग संबंधी स्थायी समतियिँ
3. वतित्त आयोग
4. वतित्तीय क्षेत्र वधायी सुधार आयोग
5. नीता आयोग

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) केवल 2 और 5

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में नमिनलखिति संसदीय समतियिँ में से कौन-सी जाँच करती है और सदन को रपिर्ट करती है कि क्या संवधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजति वनियम, नयिम, उप-नयिम, उप-कानून आदि बनाने की शक्तयिँ का कार्यपालकि द्वारा ऐसे प्रतनिधिमिंडल के दायरे में उचति प्रयोग कयि जा रहा है? (2018)

- (a) सरकारी आश्वासन समति
- (b) अधिनस्थ वधान संबंधी समति
- (c) नयिम समति
- (d) कार्य मंत्रणा समति

उत्तर: (b)

[स्रोत: द हट्टि](#)